



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-Section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 332]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 1978/कार्तिक 19, 1900

No. 332]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 1978/KARTIKA 19, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1978

सीमाशुल्क

सा० का० वि० 550(अ) :—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 141-सीमाशुल्क तारीख 16 जुलाई, 1978 को अधिकांश करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट माल को तब जब अंधों और बधिरों की किसी संस्था द्वारा (जिम्मेदार रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी भी है) उद्योग सहायक दान के रूप में प्राप्त किया गया हो या विदेशों में दान में प्राप्त विदेशी मुद्रा से खरीदा गया हो, तब जब भारत में उसका आयात किया जाए—

- (i) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उम पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से;
- (ii) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उम पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सहायक सीमाशुल्क से, और

- (iii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, छूट देती है।

सारणी

- (क) अंधों के लिए सभी मूल साधन।
- (ख) बधिरों की शिक्षा के लिए अवशेष साहाय्य और अन्य दृश्य-श्रवण साहाय्य।
- (ग) अंधों और बधिरों के लिए आवासयिक साहाय्य।
- (घ) अंधों और बधिरों को प्रशिक्षण देने या अनुदेश देने के प्रयोजन के लिए ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रेषित वस्तुएं जिनके शतशत उपकरण साधन उपस्कर मशीनें और उनके फालतू पुर्जे या संघटक पुर्जे या उपसाधन भी हैं।

2. जहाँ ऐसी कोई संस्था प्रारम्भिक दौर के नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट माल का आयात करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ करना चाहती है वहाँ ऐसी संस्था द्वारा आयातित माल की वास्तव उस दौर के अधीन छूट तब तक लागू नहीं होगी जब तक उस संस्था का अध्यक्ष या सचिव लिखित रूप में इस बात के लिए बचनबद्ध न हो कि माल का आयात किए जाने के छह मास के भीतर ही वह संस्था कार्य करना प्रारम्भ कर देगी।

परन्तु किसी विनिर्दिष्ट मामले में छह मास की उपर्युक्त अवधि पर्याप्त हेतु दक्षिण करने पर सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है जो वह ठीक समझे।

3. जहाँ माल विदेशी मुद्रा में प्राप्त वान से खरीदा गया हो वहाँ संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशों में दान की गई निधि को प्राप्त करने के लिए खाता बनाए रखने के लिए अनुज्ञात किया गया है।

[सं० 211/फा०सं० 459/151/77-सीमाशुल्क-5]

एस० बासु, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1978

### CUSTOMS

**G.S.R. 550(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 141-Cus. dated the 16th July, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table below, when imported into India by any institution (including a registered Co-operative society) for the blind and the deaf being bonafide gifts to, or purchased out of donations received abroad in foreign exchange by, such institution, from—

- (i) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (ii) the whole of the auxiliary duty of customs leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Finance Act; and

(iii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, at the time of importation of such goods into India.

### TABLE

- (a) All tangible appliances for the blind.
- (b) Hearing aids and other audio-visual aids for the education of the deaf.
- (c) Vocational aids for the blind and the deaf.
- (d) Articles including instruments, apparatus, appliances machinery and spares or component parts or accessories thereof required by such institution for the purpose of giving training or imparting instructions to the blind and deaf.

2. Where any such institution is scheduled to begin to function only after the importation of the goods specified in the Table below of the opening paragraph, the exemption under that paragraph shall not apply in respect of the goods imported by that institution, unless an undertaking in writing is given by the President or the Secretary of that institution that it will begin to function within a period of six months from the date of importation of the goods :

Provided that in any particular case, the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Collector of Customs concerned by such further period as he may deem fit.

3. Where goods have been purchased out of donations received abroad in foreign exchange the institution has been permitted to maintain an account abroad by the Reserve Bank of India for the purpose of receiving funds donated overseas.

[No. 211-F. No. 459/151/77-CUS.VI]

S. BASU, Under Secy.